

### विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	राजस्व विभाग
प्रश्न संख्या अतारांकित	:	1989
उत्तर की तिथि	:	07.03.2022
विषय	:	पदपूर्ति
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री मोहन लाल ब्राक्टा (रोहड़)
सम्बंधित मंत्री	:	जल शक्ति मंत्री ।

प्रश्न	उत्तर
क्या जल शक्ति मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:- रोहड़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कानूनगो व पटवारियों के कितने पद स्वीकृत हैं व उनमें से कितने पद रिक्त पड़े हैं; सरकार इन रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?"	"सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।"

**अतारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या: 1989 जोकि श्री मोहन लाल ब्राक्टा (रोहड़) द्वारा पदपूर्ति बारे पूछा गया है, से सम्बंधित सभा पटल पर रखे जाने वाली सूचना:-**

---

रोहड़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कानूनगो के कुल 18 पद व पटवारियों के 69 पद स्वीकृत है। जिनमें से कानूनगो के 02 पद व पटवारियों के 10 पद रिक्त हैं।

वर्तमान में जिला शिमला से 18 पटवारी प्रशिक्षुओं ने राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिन्द्रनगर, जिला मंडी द्वारा फरवरी माह में आयोजित की गई पटवार परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। उक्त प्रशिक्षित पटवारियों द्वारा जरूरी औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत पटवारी के रिक्त पदों को तुरंत प्रभाव से भर दिया जायेगा।

कानूनगो के पद पात्र पटवारियों (जिन्होंने 06 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो तथा कानूनगो के पद पर पदोन्नति हेतु जरूरी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो) द्वारा पदोन्नति द्वारा भरे जाते है। वर्तमान में कानूनगो के रिक्त पदों को भरने के लिए जिला शिमला में पात्र पटवारी उपलब्ध नहीं है। अतः जैसे ही जिले में कानूनगो के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र पटवारी उपलब्ध होते हैं, कानूनगो के रिक्त पदों को भर दिया जायेगा।

\*\*\*\*\*